## बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण फार्म - आईआरडीए — 3(ए) - एएफ (फॉर्म - आईआरडीए - 3 - एएफ का क्रमांक 4 देखें)

| ф١   | १ना / फम क   | ० प्रत्यक      | ) निदशक /                         | साई                  | મુંલાર દ્વારા ૧                       | મરા            | जाना १                  | 2           |                        |                 |                    |            |              |  |
|--|--|----------------|-----------------------------------|----------------------|---------------------------------------|----------------|-------------------------|-------------|------------------------|-----------------|--------------------|------------|--------------|--|
|  | नाम :  |                |                                   |                      |                                       |                |                         |             |                        |                 |                    |            |              |  |
|  | 2. जन्म तिथि :   |                |                                   |                      |                                       |                |                         |             |                        |                 |                    |            |              |  |
| 3. वर्तमान लाइसेंस संख्या एवं :  |  |                |                                   |                      |                                       |                |                         |             |                        |                 |                    |            |              |  |
| समाप्ति की तारीख   |  |                |                                   |                      |                                       |                |                         |             |                        |                 |                    |            |              |  |
| ४. राष्ट्रीयता :   |  |                |                                   |                      |                                       |                |                         |             |                        |                 | □□□□(3 <b>+1</b> ) |            |              |  |
| 5. योग्यता (फर्म के नए साझेदारों/कंपनी के नए निदेशकों के)  |  |                |                                   |                      |                                       |                |                         |             |                        |                 |                    |            |              |  |
| क) शैक्षणिक / पेशेवर   |  |                |                                   |                      |                                       |                |                         |             |                        |                 |                    |            |              |  |
| ख) बीमा<br>ग) प्रशिक्षण में भाग लिया (प्रकृति - अविध)  |  |                |                                   |                      |                                       |                |                         |             |                        |                 |                    |            |              |  |
|  |  | भागात          | तेया (प्रकृति                     | -                    | विधि)                                 |                |                         |             |                        | L               |                    |            |              |  |
| 6. <sup>7</sup>  | संवाद :  | -              |                                   |                      | I 3                                   |                |                         |             |                        |                 | 165                | 1          |              |  |
|  | फोन कार्यालय   |                | फ़ोन निवास                        |                      | फैक्स                                 |                | पेजर                    |             | मोबाइल                 |                 | ई-मेल              |            |              |  |
| _  |  |                |                                   |                      |                                       |                |                         |             |                        |                 |                    |            |              |  |
|  | 7. फर्म के नए साझेदारों / कंपनी के नए निदेशकों की जन्मतिथि |                |                                   |                      |                                       |                |                         |             |                        |                 |                    |            |              |  |
|  | _  |                | ारा/कंपना क<br>का प्रमाण प        |                      | •                                     | ক।             | व्यावह                  | गारक        | प्राशक्षण              | Iddin           | गा (सवक्ष          | ग/सवक्षण   | 1            |  |
|  |  |                |                                   |                      |                                       |                | <del></del>             |             | कावित                  | (TÌ)            |                    | परिण       |              |  |
| सर्वेक्षक / सर्वेक्षक<br>सर्वेक्षण फर्म सर्वेक्षण फर्म :   |  |                |                                   |                      |                                       |                | प्राप्त<br>प्रशिक्षण की |             | व्यक्ति<br>का          | (पा)<br>नाम     | कवर<br>किए गा      |            | ıH           |  |
| तपदाण प्रम<br>का नाम   |  | _              | संपद्मण प्रम प्रा<br>आवंटित विभाग |                      | को प्रदत                              |                | ारादाण<br>विधि          | 471         | <sub>पग</sub><br>जिसके | TI <del>H</del> | विषय               | ۲          |              |  |
| איו יוויי  |  | जापाटस विमाग   |                                   | यम प्रदुता<br>श्रेणी |                                       | जपाय<br>(कृपया |                         |             | अधीन                   |                 | 1444               |            |              |  |
|  |  |                |                                   | স্থ                  | <b>'</b> 11                           | ٠, ٠           | _                       | का          | प्रशिक्षण              | -               |                    |            |              |  |
|  |  |                |                                   |                      |                                       |                | ाराखा<br>ल्लेख व        |             | •                      |                 |                    |            |              |  |
|  |  |                |                                   |                      |                                       | 0              | CCIGI 4                 | <b>/</b> \) | MINI 19                | 791             |                    |            |              |  |
| ^  | श्चानात्त्वः   |                |                                   |                      |                                       |                |                         |             |                        |                 |                    |            |              |  |
|  | अनुभव :  | കുകി           | ाई नया भा <b>र्ग</b>              | ीचा                  | र क्रांची क                           | т 🗆            | оп <del>Сэ</del>        | തക          | किसी र्व               | भाग ऋंग         | rafi fi            | मोनिन श    | т            |  |
|  | ) यदा पग्म<br>दे हां, तो वि                                |                | •                                 | llGl                 | र/पग्पना पग                           | ר ו            | 191 194                 | स्थापर      | ापम्सा ब               | ילף ווייו       | ירו + ורי          | નાાંબલ વ   | I            |  |
| (ਪ।<br>ਹਨ  | ५ हा, ता 14<br>१ तीमा सर्वेश                               | परण ५<br>धक के | ) :<br>.थलाता गिल                 | <u></u>              | गेत्समाञ्जाते ।                       | ьтf            | <br>के गा               | التا ر      | टाओं / कं              | गनी के          | चा चिटेष           | गर्को (गरि | <del>}</del> |  |
| ेख) बीमा सर्वेक्षक के अलावा पिछले रोजगार में फर्म के नए भागीदारों / कंपनी के नए निदेशकों (यदि<br>लागू हो) का कार्य अनुभव |  |                |                                   |                      |                                       |                |                         |             |                        |                 |                    |            |              |  |
|  |  |                | मप<br>ागार का विव                 | 12111                | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                |                         |             |                        |                 |                    |            |              |  |
| `'')<br>मैं.   | जन्म ज्यपर   | .119/ (10      | 1111 471 149                      |                      | <br>सत्यनिष्ठा से                     | मो             |                         | उता व       | <br>ਵੱ , औਤ π          | യ കാ            | ता हैं कि उ        | द्वाउँ टिव | т            |  |
| ,  | तित्रगा गेर्र  | ो जानत         | गरी और वि                         |                      |                                       |                |                         | Y CII E     | ટું ગાર યુ             | الا ۱۲۳         | CII g 197 V        | जनर ।५५    | 5            |  |
| गए<br>नाम  |  | . 91119        | 71(1 VII( 19)                     | qı VI                | 1 41 ALJ (11)                         | · VI           | 61.61                   |             |                        |                 |                    |            |              |  |
|  | ' ·<br>गांक :  |                | <del></del>                       |                      |                                       |                | ਵ਼ਰ                     | ताक्षर      |                        |                 |                    |            |              |  |
| . ~  |  |                |                                   |                      |                                       |                | (- )                    |             |                        |                 |                    |            |              |  |